



सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

20 चैत्र, 1940 (श०)

संख्या- 415 राँची, मंगलवार,

10 अप्रैल, 2018 (ई०)

---

### राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड

.....

अधिसूचना

6 अप्रैल, 2018

संख्या:- 03नि/न0-05/2018 : 713 - राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड राँची की अधिसूचना संख्या-302 दिनांक-06 मार्च, 2018 द्वारा झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 541(3) एवं धारा 541(4) तथा झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 के नियम 26 के तहत नगरपालिका (आम एवं उप) निर्वाचन, 2018 के निमित्त निर्वाची पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारी को पदाभिहित एवं नाम निर्दिष्ट करते हुए अधिसूचित किया गया ।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) -सह- उपायुक्त, राँची के पत्रांक 335(II) दिनांक 05 अप्रैल, 2018 द्वारा प्राप्त, महापौर एवं उप महापौर पद के लिए मतगणना एवं अन्य कार्य हेतु अतिरिक्त सहायक निर्वाची पदाधिकारियों की नियुक्ति के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्य निर्वाचन आयोग निम्नांकित पदाधिकारियों को सहायक निर्वाची पदाधिकारी के रूप में पदाभिहित एवं नाम निर्दिष्ट करते हुए अधिसूचित करता है ।

क्र०सं०	जिला का नाम	नगर निकाय का नाम	पद का नाम	पदाभिहित एवं नाम निर्दिष्ट सहायक निर्वाची पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम
1	2	3	4	5
1	राँची	राँची नगर निगम	महापौर	श्रीमती सुषमा बड़ाईक, कार्यपालक दण्डाधिकारी, सदर, राँची
				श्री गौरी शंकर शर्मा, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नामकुम
				श्री रवि शंकर, कार्यपालक दण्डाधिकारी, सदर, राँची
			उप महापौर	श्री मुकेश कुमार, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ओरमांझी
				श्री दिवाकर द्विवेदी, अंचल अधिकारी, नगड़ी

2. अधिसूचना संख्या 302 दिनांक-06 मार्च, 2018 के शेष सभी अंश यथावत् रहेंगे।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से,

**ह० /-(अस्पष्ट),**

सचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग,

झारखण्ड, राँची।

-----